



प्रधान कार्यालय
Headquarters Office
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
Central Organisation for RAILWAY ELECTRIFICATION
इलाहाबाद Allahabad - 211001.

पत्रांक-कोर/पीआर/010/भाग-7

दिनांक- 16.09.2019

राजभाषा सप्ताह उद्घाटन समारोह सम्पन्न

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में दिनांक 16.09.2019 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्री आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर राजभाषा सप्ताह उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही राजभाषा सप्ताह समारोह का शुभारम्भ हो गया। इस अवसर पर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर, श्री विनोद कुमार वर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इलाहाबाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नन्दनपन्त, महीयशी महादेवी वर्मा, पं. देवीदत्त शुक्ल जैसे महान साहित्यकारों की सृजन स्थली रही है। साहित्य एवं हिंदी के ऐसे गढ़ में मुख्यालय होने के कारण हमारा दायित्व भी बनता है कि हम अपने अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोक कर मिसाल कायम करें।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री आलोक गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि हिंदी दिवस या राजभाषा सप्ताह समारोह का आयोजन करके हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण न समझे बल्कि व्यावहारिक रूप में सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हिंदी के कठिन शब्दों के बजाय प्रचलित शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो लिखने और समझने में आसान हों।

इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

समारोह में मुख्यालय के विभागाध्यक्ष सर्वश्री सत्य प्रकाश, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, अरुण कुमार, वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक, डी.बी.सिंह, मुख्य बिजली इंजीनियर(मु.), के.के.सिंह, मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर (पी तथा डी), श्रीमती प्रमिला सिंह, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, श्री अखिलेश चन्द्रा, मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब तथा भारी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन श्री आकाश दीप, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुनीला यादव ने किया।

(संतोष कुमार मिश्रा)
मुख्य जन संपर्क अधिकारी
कोर/इलाहाबाद